



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 1982/चैत्र 26, 1904

No. 119]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 1982/CHAITRA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1982

अधिसूचनाएं

सं. 110/82-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 313(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग की अधिसूचना सं. 254-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक सं. 73.30/40 के उपशीर्षक सं. (1) के अन्तर्गत आने वाले लौह या इस्पात के ढलाई के और पिटाई के माल पर जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उसने भाग में, जो मूल्य के 60 प्रतिशत में अधिक है छूट देती है।

[फा. सं. 527/1/82-सी.शु. (टी य)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th April, 1982

NOTIFICATIONS

NO. 110/82-CUSTOMS

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 254-Customs dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts iron or steel castings and forgings, falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.33/40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is in excess of 60 per cent ad valorem.

[F. No. 527/1/82-Cus(TU)]

सं. 111/82-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 314(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की

पहली अनुसूची के शीर्षक सं. 73.15 के उपशीर्षक सं. (1) के अन्तर्गत आने वाले मिश्रधातु इस्पात (जिसके अन्तर्गत स्टेनलेस स्टील भी है) और अधिकार्बन इस्पात को, जब इनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट इन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से, जो मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक है छूट देती है।

[फा. सं. 527/1/82-सी.शु. (टी यू.)]

#### NO. 111/82-CUSTOMS

**G.S.R. 314(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts alloy steel (excluding stainless steel) and high carbon steel, falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule as is in excess of 60 per cent ad valorem.

[F. No. 527/1/82-Cus(TU)]

#### सं. 112/82-सीमाशुल्क

**सा. का. नि. 315(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 33-सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस्पात मिश्रधातु (जिसके अन्तर्गत स्टेनलेस इस्पात नहीं है) और उच्च कार्बन इस्पात को जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्यांक 73.08, 73.09 और 73.14 में वर्णित प्रारूपों में, और जो उक्त पहली अनुसूची के शीर्षक सं. 73.15 के उप-शीर्षक सं. (1) के अन्तर्गत आता है जब इसका भारत में आयात किया जाए को उक्त पहली अनुसूची में वर्णित उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने से जो उसके मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

[फा. सं. 527/1/82-सीमाशुल्क (टी यू.)]

#### NO. 112/82-CUSTOMS

**G.S.R. 315(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 33-Customs dated the 28th February, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts alloy steel (excluding stainless steel) and high carbon steel in the forms mentioned in Heading Nos. 73.08, 73.09 and 73.14 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15 of the said First Schedule, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 35 per cent ad-valorem.

[F. No. 527/1/82-Cus.(TU)]

#### सं. 113/82-सीमा शुल्क

**सा. का. नि. 316(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समा-

धान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकारी विभाग की अधिसूचना सं. 107 सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई 1947 का निम्नलिखित लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

- (1) क्रम सं. 11 के सामने स्तम्भ (2) में “73.16” अंकों के स्थान पर “73.16(1)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (2) क्रम सं. 12 के सामने स्तम्भ (2) में “73.21” अंकों के स्थान पर “73.21(1)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (3) क्रम सं. 13 के सामने स्तम्भ (2) में “उप-संशोधन करती है, अर्थात् :—  
शीर्षक सं. (2)” शब्द अक्षर, कोष्ठक और

[फा. सं. 527/1/82-सी.शु. (टी यू.)]

#### NO. 113/82-CUSTOMS

**G.S.R. 316(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 107-Customs, dated the 1st July, 1977, namely:

In the Table annexed to the said notification,—

- (i) against Sl. No. 11, in column (2), for the figures “73.16”, the figures and brackets “73.16(1)” shall be substituted ;
- (ii) against Sl. No. 12, in column (2), for the figures “73.21”, the figures and brackets “73.21(1)” shall be substituted ;
- (iii) against Sl. No. 13, in column (2), for the word, letters, brackets and figures “sub-heading No. (2)”, the word, letters, brackets and figures “Sub-heading No. (1)(ii)” shall be substituted.

[F. No. 527/1/82-Cus(TU)]

#### सं. 114/82-सीमा-शुल्क

**सा. का. नि. 317(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26 सीमा-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) तार की ऐसी छड़ें जो 13 मि. मि. या उससे कम अनुप्रस्थ काट माप की नहीं हैं,”

[फा. सं. 523/1/82-सीमा-शुल्क (टी. यू.)]

#### NO. 114/82-CUSTOMS

**G.S.R. 317(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government

of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26-Customs, dated the 1st March, 1981, namely :—

In the said notification, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) wire rods of which no cross-sectional dimension is 13 mm or less”

[F. No. 527/1/82-Cus(TU)]

सं. 115/82-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अविज्ञान सं. 27-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को विरुद्ध करती है।

[फा. सं. 527/1/82-सी. शु. (टी. यू.)]

के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

NO. 115/82-CUSTOMS

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27-Customs, dated the 1st March, 1981.

[F. No. 527/1/82-Cus(TU)]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

